

तुरंत रिलीज के लिए

वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम: 2020 में पूरे ब्रैम्पटन में 50,000 नए पेड़ लगाए जाएंगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 फरवरी, 2020) – आज, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम (One Million Trees Program) के भाग के तौर पर, हर वर्ष पूरे शहर में 50,000 नए पेड़ लगाने का समर्थन किया। यह जलवायु संबंधी बदलाव के खतरे से निपटने की ओर दूसरा बड़ा कदम है।

2019 में, काउंसिल ने जलवायु संबंधी एमरजेंसी घोषित करने के लिए सर्वसम्मति से वोट दी थी। इसका उद्देश्य शहर में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकालने को 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करना है।

पिछले पांच वर्षों में, सिटी और इसके भागीदारों – जिनमें शामिल हैं, संरक्षण अथॉरिटीज, रीजन ऑफ पील (Region of Peel), स्कूल बोर्ड और विकास इंडस्ट्री – ने ब्रैम्पटन में हर वर्ष औसतन 43,000 पेड़ लगाए हैं। वार्षिक तौर पर लगाए जाने कम से कम 7,000 पेड़ों की वृद्धि के साथ, सिटी, ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) को पूरा करने और 2040 तक एक मिलियन पेड़ों के लक्ष्य तक पहुंचने के एक कदम और नजदीक है।

शहरी जंगल विकसित करते हुए, स्थानों को और सुंदर बनाते हुए और लोगों के स्वास्थ्य को सहयोग करते हुए पेड़, जलवायु संबंधी बदलाव को कम करने और अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम के साथ, हरी कैनोपी को बढ़ाने और ईकोसिस्टम सेवाओं की डिलीवरी को विकसित करने के लिए सड़कों, सार्वजनिक पार्कों और मौजूदा रिहायशी पड़ोस और व्यवसायिक/इंडस्ट्रियल ज़मीनों पर सिटी के स्वामित्व वाली और ज़मीनों के साथ, अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।

सिटी स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रयास हरे-भरे शहर (Green City), टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) प्रायोरिटी के निर्माण में योगदान देते हैं।

संक्षेप तथ्य:

- इस समय ब्रैम्पटन में लगभग 3.6 मिलियन पेड़ हैं, जो कुल ज़मीन के 18 प्रतिशत भाग पर हैं।
- वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम ज़मीन पर नए पेड़ लगाने पर केंद्रित है। 2040 तक एक मिलियन पेड़ों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वार्षिक तौर पर अतिरिक्त 7,000 पेड़ लगाने की जरूरत होगी।
- शहरी जंगल की सूची बनाने, संचालनों, देखभाल और निगरानी के संबंध में निर्देशों पर, सिटी के *अर्बन फोरेस्ट मैनेजमेंट प्लान (Urban Forest Management Plan)* में ध्यान दिया जाएगा, जिसे इस समय विकसित किया जा रहा है।

हवाले

“यह ब्रैम्पटन को हरा-भरा शहर बनाने की ओर दूसरा रोमांचक कदम है। सिटी, जलवायु संबंधी बदलाव की चुनौती पर ध्यान देने में अपनी भूमिका निभा रही है। ग्लोबल कोवेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी का सदस्य होने के नाते, मैं इस वर्ष लागू की जा रही इस शानदार और चुनौतीपूर्ण कार्यनीति को और आने वाले वर्षों में वातावरण-अनुकूलित और पहलकदमियों को भी देखने के लिए उत्साहित हूँ।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2050 तक ब्रैम्पटन में ग्रीनहाउस गैस निकालने को 80 प्रतिशत तक कम करने का हमारा लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम अपने सामुदायिक भागीदारों के साथ मिलकर और वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम जैसी पहलकदमियों के साथ इसे पूरा कर सकते हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर वाइर्स 1 और 5 और चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन में कुछ बहुत ही शानदार हरे-भरे स्थान हैं। वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम एक रोमांचक पहलकदमी है, जो भागीदारों के माध्यम से, हरा-भरा शहर बनने की काउंसिल की प्राथमिकता को लगातार आगे बढ़ाने और हमारे निवासियों के आनंद लेने के लिए अधिक स्थानों को पेड़ों वाला बनाने के लिए हमारे समर्पित स्टाफ की मदद करेगी।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca